



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 271] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 1977/श्रावण 21, 1899

No. 271] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 1977/SRAVANA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 12th August 1977

G.S.R. 569(E).--In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 53/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, namely —

In the Table annexed to the said notification, in column (2), for the figures "5.00", the figures "9.00" shall be substituted.

[No. 277/77]

(1617)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 569 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 53 72 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध सारणी में, स्तम्भ (2) में “5.00” अंको के स्थान पर “9.00” अंक रखे जाएंगे।

[सं० 277/77]

G.S.R. 570(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts man-made fibres and tops falling under sub-item I of Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and made from undrawn wastes falling under Item No 68 of the said First Schedule, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 450 per kilogram.

[No 278/77]

सा० का० नि० 570 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 की उप-मद (1) के अन्तर्गत सम्मिलित कृत्रिम फाईबरो और टोपो को जो उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत सम्मिलित बिना कती की रद्दी से तैयार किए गए हों, उन पर उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो 4.50 रु० प्रति किलोग्राम से अधिक है।

[सं० 278/77]

G.S.R. 571(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts man-made fibres and tops falling under sub-item I of Item No 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, subject to condition that such fibres and tops are manufactured out of drawn wastes falling under sub-item I or sub-item II of Item No 18 of the said First Schedule on which appropriate duty of excise has already been paid.

[No. 279/77]

सा० का० नि० 571 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 की उप-मद (1) के अन्तर्गत सम्मिलित कृत्रिम फाईबरो और टोपो को, उन पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हुए, छूट देती है कि ऐसे फाईबर और टोप, उक्त प्रथम

अनुसूची की मद सं० 18 की उपमद I या उपमद II के अन्तर्गत सम्मिलित कती रहीं, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले सदात्त किया जा चुका है, विनिर्मित किए जाते हैं।

[सं० 279/77]

G.S.R. 572(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts woollen and acrylic spun yarn falling under sub-item (ii) of Item No. 18B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), other than worsted woollen and acrylic spun yarn, and containing non-cellulosic fibre in the form of wastes or in the form of fibre produced out of such wastes, from the whole of the duty of excise leviable thereon

[No. 280/77]

A. S. SIDHU, Under Secy

सं० का० वि० 572(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 ख की उपमद (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित ऊनी और एक्रिलिक बुने हुए सूत को, जो बसटेड ऊनी और एक्रिलिक बुने हुए सूत से भिन्न है, और जिसमें रहीं के रूप में अथवा ऐसी रहीं से तैयार किए गए फाईबर के रूप में गैर-सैल्यूलोसिक फाईबर हो, उस पर उदग्रहनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 280/77]

ए० एस० सिद्धू, अधर सचिव।

